

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 511]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2018 — पौष 6, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

आदेश

क्रमांक 12487/2901/21-ब/छ.ग./2018. — राज्य शासन, एतद्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला-बस्तर (जगदलपुर) के पद पर नियुक्त श्री दिनेश कुमार पानीग्रही, अधिवक्ता, जिला-बस्तर, (जगदलपुर)(छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 18-05-2018 से पुनः 03 वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - 2014- न्याय प्रशासन, 114- कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सेमसिंह मरावी, अवर सचिव.